



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1941 (श0)

(सं0 पटना 999) पटना, मंगलवार, 27 अगस्त 2019

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

22 अगस्त 2019

सं० 5 नि०गो०वि० (01) 02/2016-230/नि०गो०—श्री अनमोल कुमार, तदेन गव्य शोध पदाधिकारी बिहार, पटना के विरुद्ध आरोप गठित किया गया है कि वे व्यक्तिगत कारणों से बिना अनुमति के अनाधिकृत रूप से विभागीय वाहन संख्या BR01 PA 2353 मुख्यालय से बाहर ले गये, जो चोरी हो गयी। श्री कुमार का उक्त कृत्य न केवल कर्तव्य के प्रति स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है, बल्कि उनका उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन है।

उक्त आरोपों के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से बाहर जाने संबंधी आरोप सही प्रमाणित नहीं होता है परंतु आरोपित पदाधिकारी श्री अनमोल कुमार द्वारा सरकारी वाहन का निजी उपयोग किया गया था।

उक्त जाँच प्रतिवेदन को आरोपित पदाधिकारी को भेजते हुए उनसे द्वितीय लिखित अभिकथन की मांग विभागीय पत्रांक 175 नि०गो० दिनांक 02.07.2018 द्वारा किया गया। आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार द्वारा द्वितीय लिखित अभिकथन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि उनके द्वारा विभागीय वाहन संख्या BR01 PA 2353 से मुजफ्फरपुर घर जाना अतिआवश्यक हो जाने के फलस्वरूप वाहन से यात्रा की सूचना देते हुये आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन दिया गया था। संधारित आकस्मिक छुट्टी पंजी में दिनांक 29.06.2016 के लिये आकस्मिक अवकाश दर्ज की गयी है। उनके द्वारा दिनांक 29.06.2016 के लिये समर्पित आकस्मिक अवकाश संबंधी आवेदन सक्षम उच्चाधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया। फलतः वाहन से यात्रा की स्वीकृति भी प्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि मामले में वाहन चालक द्वारा काजी मोहम्मदपुर थाना, मुजफ्फरपुर में वाहन चोरी का प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी। प्रासंगिक थाना कांड के अंतिम प्रतिवेदन में उल्लेख है कि इस कांड का अनुसंधान हर बिन्दु पर पूर्ण है। घटना स्थल के निरीक्षण, वादी एवं गवाहों का बयान, वरीय पदाधिकारी के पर्यवेक्षण टिप्पणी से कांड धारा 379 भा०द०वि० के अंतर्गत

अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया। कांड के उद्भेदन हेतु पूर्व के आरोपित एवं संदिग्धों की जाँच पड़ताल की गयी तथा गुप्तचर की भी तैनाती की गयी परन्तु कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हो सका तथा निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है। अतः इस कांड का अनुसंधान बन्द किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा व्यक्तिगत कारणों से अनुमति प्राप्त कर ही विभागीय वाहन संख्या BR01 PA 2353 मुजफ्फरपुर ले जाया गया, जहाँ से वाहन चोरी हो गयी। इस संबंध में दर्ज थाना कांड का अनुसंधान भी बंद कर दिया गया। परंतु यह बात भी सत्य है कि सरकारी वाहन की चोरी हो जाने से सरकारी राशि का नुकसान हुआ है। परंतु निदेशक गव्य द्वारा विभागीय वाहन संख्या BR01 PA 2353 के बीमा के संबंध में पत्रांक 961 दिनांक 25.06.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गव्य शोध पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक 49 दिनांक 13.03.2019 के द्वारा Insurance Claim Settlement की राशि रुपये 2,03,190/- बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त होने की सूचना दी गई है, जिसे सरकारी कोष में चालान के माध्यम से जमा करवा दिया गया।

Insurance कम्पनी द्वारा तत्समय वाहन का Valuation कर विभागीय वाहन BR01 PA 2353 को वीमित किया गया था। फलतः सरकारी राशि का नुकसान की प्रतिपूर्ति हो गयी है। वर्तमान में सरकारी राशि की कोई क्षति प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी पर बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से बाहर जाने संबंधी आरोप सही प्रमाणित नहीं होने तथा Insurance Claim Settlement की राशि रुपये 2,03,190/- सरकारी कोष में जमा हो जाने के कारण सरकारी राजस्व की कोई क्षति नहीं होने की स्थिति में श्री अनमोल कुमार, तदेन गव्य शोध पदाधिकारी, बिहार, पटना सम्प्रति जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में श्री अनमोल कुमार, तदेन गव्य शोध पदाधिकारी, बिहार, पटना सम्प्रति जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज का गठित आरोपों से मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से
कामेश्वर दास,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 999-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>